

## प्रेस नोट दिनांक 16/06/2022

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री सुरेश चंद्र रावत, के कुशल व प्रभावी मार्गदर्शन में जनपद सिद्धार्थनगर में कल दिनांक 17 जून, 2022 दिन शुक्रवार जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपद सिद्धार्थनगर में सुदृढ़ पुलिस प्रबंधन किया गया है। जनपद के 164 धर्मगुरु / प्रभावशाली व्यक्तियों से समन्वय स्थापित किया गया है तथा समस्त स्थानों पर पीस कमेटी की बैठक की गई है। संपूर्ण जनपद को तहसीलवार 05 जोनों में बांटा गया है, प्रत्येक जोन में एक उप-जिलाधिकारी तथा एक पुलिस उपाधीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण जनपद को 21 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक सेक्टर के प्रभारी, मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी रहेंगे, जनपद में कुल 10 क्विक रिएक्शन टीमों बनाई गई हैं, और प्रत्येक थानों पर 11-11 पुलिसकर्मियों की 1-1 स्ट्राइक टीम बनाई गई है जिसमें एक फोटोग्राफर, एक सादा वस्त्रधारी पुलिसकर्मी, एक आंसू टियर गैस गन के साथ, एक रबर बुलेट के साथ, एवं अन्य पांच पुलिसकर्मी लाठी पार्टी, में रहेंगे तथा एक कमांडर एवं एक सब कमांडर उप-निरीक्षक पद के बनाए गए हैं।

जनपद में कुल 42 हॉटस्पॉट चिन्हित करके पुलिस पिकेट लगाई गई है, और अतिसंवेदनशील पॉकेट को चिन्हित कर सात क्लस्टर पार्टियां बनाई गई हैं, क्लस्टर पार्टियों में वाहन के साथ-साथ चार-चार सशस्त्र पुलिस बल लगाई गई है, एवं तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन दस्ता को लगाया गया है। यूपी-112 की सिद्धार्थनगर टीम के 47 वाहनों को 24 घंटे सतत, सतर्क एवं भ्रमणशील रहने हेतु निर्देशित किया गया है, इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्म पर एक विशेष टीम गठित कर सतत निगरानी(24\*7) की जा रही है, आज समस्त थानों द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से घरों के ऊपर की वीडियोग्राफी कराई गई है, एवं किसी भी अन्य अवांछनीय सामग्री इत्यादि की इकट्ठा होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है।

## प्रेस नोट:दिनांक 16.06.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

**यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान, पी0ए0सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार- प्रसार किया गया।**

आज दिनांक 16.06.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अखिलेश वर्मा के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार यादव मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0 सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा वाहन चालकों को हेलमेट तथा सीट बेल्ट पहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान खतरनाक तरीके से ड्राइविंग / स्टंट व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व सड़क पर नियम विरुद्ध तरीके से खड़े वाहनों तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 25 वाहनों से 36500 रु० शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

## प्रेस नोट दिनांक-16/06/2022

### जनपदीय साइबर टीम द्वारा थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर साइबर से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गयी ।

आज दिनांक 16/06/2022 को पुलिस लाईन सभागार में साइबर स्वच्छता और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साइबर नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी सदर प्रदीप कुमार यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया जिसमें जनपदीय की साइबर टीम ने थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मियों के कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया एवं साइबर जागरूकता को प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया उक्त कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों से एक एक उपनिरीक्षक एक एक आरक्षियों ने प्रतिभाग किया साइबर की गूढ़ जानकारी देकर आम जनमानस की साइबर की सुरक्षा की भावना जागृत की जा सके । कार्यशाला में साइबर सेल प्रभारी पंकज पांडेय, आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी, आ0 अतुल चौबे, आ0 आशुतोष जयसवाल, आ0 राहुल मौर्या, आ0 अजय यादव, आ0 शिवम मौर्या साइबर सेल से अतुल चौबे और दिलीप द्विवेदी ने बताया कि आजकल हमारे समाज में साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। हमारा और आपका ये दायित्व है कि इन बढ़ते हुए अपराधो को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से वाकिफ रहे और अपने समाज में भी इससे जागरूक करे।

1. अपने मेहनत से अर्जित किए हुए धन को किसी भी लॉटरी सिस्टम/या ऐसे ऐप में न लगाए।
2. कभी भी किसी फर्जी वेबसाइट और ऐसे लोगो के विश्वास में न आए।
3. अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या समस्या या कोई आपको किसी कारण से ब्लैकमेल करे तो घबराएं नहीं, पुलिस से संपर्क करे।
4. अगर आपके साथ कोई धोखे से धन ले लिया या कोई फ्रॉड हो गया तो जल्दी से जल्दी भारत सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 1930 एवम [cybercrime.gov.in](http://cybercrime.gov.in) पर अपनी समस्या अंकित कराए।
5. अपने मोबाइल को लॉक रखे एवम ऐप को भी लॉक रखें जिससे आपके निजी जानकारी या चित्र या कोई डाटा चोरी न कर पाए।
6. मोबाइल गेम्स के चक्कर में बच्चे आपके खाते से पैसे जाने अंजाने में गायब कर सकते है तो अभिभावक इससे सतर्क रहे।
7. आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी निजी जानकारी व्हाट्स एप पर सांझा न करें ।

**प्रेस नोट दिनांक 16.06.2022 थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर**  
**महिला सशक्तिकरण व साइबर हेल्प लाइन के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला**  
**हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान**

डॉ० यशवीर सिंह , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री हरीश चंद्र क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री राजेश कुमार मौर्य थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 16.06.2022 को महिला बीट पुलिस अधिकारी म०का०अंजली गुप्ता व म०का०विभा वर्मा द्वारा ग्राम कंदवा में महिलाओं व बालिकाओं को एकत्रित कर उनके सम्मान एवं स्वालंबन मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओ, सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं महिला सम्बन्धी अधिकारो के बारे जानकारी दी गयी और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन न० -112,181,1076,1090,1098,102,108 आदि के बारे में भी बताया गया ।

**प्रेस नोट-थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर दिनांक 16.06.2022**  
**महिला सशक्तिकरण व साइबर हेल्प लाइन के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला**  
**हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान**

डॉ० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरिया गंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 16.06.2022 को श्री बलजीत कुमार राव प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार सिद्धार्थनगर के निर्देशन में महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला आरक्षी प्रतिमा दुबे एवं महिला आरक्षी ममता मिश्रा द्वारा महिलाओं ,बच्चो के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में कम्हरिया बुजुर्ग में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओ को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चियों को महिला सम्बन्धी अपराध एवं साइबर सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड एवं साइबर हेल्प लाइन 1930 के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

**प्रेस नोट - दिनांक 16.06.2022 थाना महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर**  
**आज दिनांक 16-06-2022 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन**  
**कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 16-06-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 02 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । परामर्शन के बाद पत्रावली का सफल निस्तारण संभव हुआ । 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म०हे०का० सविता सिंह व महिला आरक्षी अनिशा सरोज व महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी व महिला आरक्षी प्रियम्बदा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

**निस्तारित पत्रावली का विवरण :-**

1. ताहिरा पत्नी मो०अफजल साकिन महमुदवापुर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

**\*प्रेस नोट- दिनांक 16.06.2022 जनपद सिद्धार्थ नगर\***

**\*जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रूटमार्च, सुरक्षा व्यवस्था के प्रति किया**  
**आश्चस्ता।\***

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखने तथा अराजक तत्वों को चेतावनी दिए जाने के उद्देश्य से आज दिनांक 16-06-2022 की शाम को संवेदनशील स्थलों पर भारी पुलिस बल के साथ समस्त थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई । डॉंग स्व्वाड के माध्यम से संवेदनशील स्थलों की निगरानी की गई । कस्बा नौगढ़ में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, कस्बा बर्डपुर में श्री प्रदीप यादव क्षेत्राधिकारी सदर, कस्बा उसका बाजार में श्री अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी यातायात, कस्बा जोगिया में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थनगर, कस्बा शोहरतगढ़ में श्री हरीश चंद्र क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ , कस्बा इटवा में श्री रमेश चंद्र पांडे क्षेत्राधिकारी इटवा, कस्बा डुमरियागंज में श्री अजय श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, कस्बा बासी में श्री देवी गुलाम सिंह क्षेत्राधिकारी बांसी के नेतृत्व में तथा अन्य थानों में संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में सघन पैदल गस्त की गई ।